

AJ-1232

B.Com. (Part-I) Term End Examination, 2021-22

INDIAN TAX SYSTEM

(Group-D) Paper-I

Time : 3 hours]

[Maximum Marks : 50

नोट- सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note : Attempt all five questions. One question from each unit is compulsory. All questions carry equal marks.

इकाई-I/Unit-I

1. “प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों ही कर उपयुक्त कर प्रणाली के लिए आवश्यक हैं।” इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

“Direct and Indirect both the taxes are necessary for a suitable taxation system.” Discuss the statement critically.

अथवा/OR

केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच आय के साधनों के बंटवारे की वर्तमान प्रणाली का वर्णन कीजिए।

Describe the present system of division of revenue resources between the central and state government.

इकाई-II/Unit-II

2. माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) क्या है? जी.एस.टी. के गुण-दोषों पर प्रकाश डालिये।

What is GST ? Throw light on merits and demerits of GST.

अथवा/OR

माल एवं सेवाकर अधिनियम के अन्तर्गत निम्न को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए :-

Define the following under GST Act with examples :-

- (i) व्यवसाय का स्थान Place of business
- (ii) पूर्तिकर्ता Supplier
- (iii) इनपुट कर क्रेडिट Input tax credit
- (iv) ई-वे बिल E-way Bill
- (v) पूँजीगत वस्तुएँ Capital goods

इकाई-III/Unit-III

3. राष्ट्रीय जी.एस.टी. एवं दोहरा जी.एस.टी. में अंतर बताइये। भारत में दोहरा जी.एस.टी. अपनाने के क्या कारण रहे हैं?

Distinguish between National GST and Dual GST. What are the reasons for adoption Dual GST in India ?

[P.T.O.]

अथवा/OR

जी.एस.टी. परिषद के गठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए ।

Discuss the constitution of GST council and its functions.

इकाई-IV/Unit-IV

4. माल एवं सेवाकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन की विधि समझाइये तथा पंजीयन कराने व न कराने के प्रभाव बताइये ।

Describe the procedure for registration under GST Act. Point out impact of to get registration or not.

अथवा/OR

माल एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन निरस्त करने तथा पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन करने से सम्बन्धित प्रावधानों को लिखिए ।

Write the provisions related to cancellation of registration and amendment in registration certificate under GST Act.

इकाई-V/Unit-V

5. माल एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लेख कीजिए ।

State the provisions regarding Furnishing of returns under the Goods and Service Act.

अथवा/OR

इनपुट टैक्स क्रेडिट से क्या आशय है? इनपुट टैक्स क्रेडिट की शर्तें बताइये । साधन सामग्री एवं पूंजीगत माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलती है स्पष्ट कीजिए?

What is input tax credit ? Discuss the conditions of input tax credit. How allowed input tax credit in respect of inputs and capital goods ?